



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1982/श्रावण 9, 1904

No. 230] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1982/SRAVAN 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

सं. 207/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 513(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष
महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3)
के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग) की तारीख 31 मई, 1980 की अधिसूचना सं. 63/80 के. उ. शु.
को अधिष्ठात करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
(1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने
509GI/82

(1)

बाली चीनी का, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है, जितना, क्रमशः पांच प्रतिशत और छः प्रतिशत की दर से संगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक है ;

परन्तु यह कि इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत, केंद्रीय सरकार, आवश्यक दस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अधीन विक्रय किए जाने की अपेक्षा करती है ।

2 यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1982 को प्रवृत्त होगी, और 30 नवम्बर, 1982 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, लागू रहेगी ।

[सं. 207/82-सी.ई./फा. सं. 14/32/82-सी एक्स-1]

आर. देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1982

No. 207/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 63/80-Central Excises, dated the 31st May, 1980, the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at five per cent and six per cent, respectively :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1982 and shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of November, 1982.

[No 207/82-CE/F. No. 14/32/82-CX II]

R. DEB, Under Secy.